#### **Jaykay Enterprises Limited**



CIN: L55101UP1961PLC001187

Date: May 25, 2024

To Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 500306 ISIN: INE903A01025

Sub: Newspaper Advertisement - Completion of Dispatch of Notice of Postal Ballot

Ref: Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir(s)/Madam,

This is in continuation to our earlier intimation dated May 22, 2024 wherein we informed the matter pertaining to forthcoming event i.e. postal ballot of the Company, we would like to inform you that the Company has completed the dispatch of notice of postal ballot through e-mail on May 24, 2024.

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement for notice of postal ballot published today i.e. May 25, 2024, in the following newspapers:

- Business Standard English (all India editions)
- Aaj Hindi (Kanpur edition)

This disclosure will also be hosted on Company's website viz. www.jaykayenterprises.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you

Yours Faithfully, For Jaykay Enterprises Limited

Yogesh Sharma Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: A29286

Encl.: As above



Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur- 208001 (INDIA)

Phones: +91 512 2371478 - 81

E-mail: cs@jaykayenterprises.com, Web: www.jaykayenterprises.com



#### Astra Microwave Products Limited

Regd. office: Astra Towers, Survey No: 12(Part), Opp. CII Green Building, Hitech City, Kondapur, Hyderabad, Telangana, India -500038 Phone: +91-040-46618000, 46618001, Fax: +91-040-46618048 Email: info@astramwp.com, Website: www.astramwp.com, CIN: L29309TG1991PLC013203



EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 IN COMPLIANCE WITH THE INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS) (Rs. Lacs)

									,	ns. Lausj		
			Standalone			Consolidated						
Particulars	Quarter ended			Year e	ended	Quarter ended			Year ended			
T di Hodiulo	31.03.2024 Audited	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2024 Audited	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited		
1. Total income from operations	35257.62	22981.41	25634.45	80727.25	90425.73	35395.50	23101.73	25844.37	81551.57	90,882.02		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional and Extraordinary Items)	6787.91	5620.15	1681.35	10290.63	15165.17	6749.52	5495.87	1933.03	9891.30	14698.66		
Net Profit / (Loss) for the period before Tax     (after exceptional and extraordinary Items)	6787.91	5620.15	1681.35	10290.63	15165.17	7127.64	5749.88	1795.33	9594.75	15901.34		
Net Profit / (Loss) for the period after Tax     (after exceptional and extraordinary Items)	5039.35	4204.36	1236.28	7664.75	11299.07	5384.14	4337.83	1352.29	6982.95	12050.61		
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	4881.16	4229.42	1058.15	7546.34	11216.05	5250.87	4363.52	1165.77	6916.14	12000.31		
6. Equity Share Capital	1898.90	1898.90	1732.23	1732.23	1,898.90	1898.90	1898.90	1732.23	1732.23	1898.90		
7. Other Equity	0.00	0.00	0.00	63570.10	94919.56	0.00	0.00	0.00	62530.15	94663.87		
8. Earnings Per Share (of Rs. 2/-each)												
Basic:	5.31	4.43	1.43	8.85	12.00	5.67	4.57	1.56	8.06	12.80		
Diluted:	5.31	4.43	1.43	8.85	12.00	5.67	4.57	1.56	8.06	12.80		

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended 31st March 2024 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended 31st March, 2024 financial results are available on the Websites of stock exchanges (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.astramwp.com)

The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Hyderabad S Gurunatha Reddy Date: 24.05.2024 Managing Director DIN No: 00003828

www.astramwp.com



#### **JAY SHREE TEA & INDUSTRIES LIMITED**

Regd.Office : "Industry House", 10, Camac Street, Kolkata -700 017

Ph.: +91 33 2282 7531-4, Fax: + 91 33 2282 7535, E-mail: webmaster@jayshreetea.com Website: www.jayshreetea.com, CIN No.: L15491WB1945PLC012771 STATEMENT OF STANDALONE / CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED 3151 MARCH, 2024									
₹ in Lakh except as otherwise stated Standalone Consolidated									
	Consolidated								
Particulars	Quarte	r Ended	Year I	Ended	Year I	Ended			
1 4/14/4/4/4	31st March 2024 (Audited)	31st March 2023 (Audited)	31st March 2024 (Audited)	31st March 2023 (Audited)	31st March 2024 (Audited)	31st March 2023 (Audited)			
1. Total Income from Operations (Net)	13,683	14,222	74,790	79,404	76,102	81,259			
Net Profit / (Loss) before Tax,     Discontinued operation and     Exceptional items	(5,088)	(5,427)	(2,076)	(2,878)	(2,461)	(2,793)			
Net Profit / (Loss) before Tax and Discontinued operation but after Exceptional items	(2,667)	(755)	345	1,794	(54)	(4,817)			
Net Profit / (Loss) after Tax, Share of Profit of Associate and Exceptional items but before Discontinued operations	(1,457)	(953)	1,555	1,596	1,299	(4,472)			
Net Profit / (Loss) after Tax,     Discontinued operations &     Exceptional items	(1,457)	(953)	1,555	1,596	1,299	(4,714)			
Total Comprehensive Income     [comprising Profit / (Loss) and Other     Comprehensive Income (after tax)]	(385)	(951)	2,615	1,287	2,413	(5,329)			
<ol> <li>Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 5/- per share)</li> </ol>	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,133			

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange websites namely www.bseindia.com www.nseindia.com and also available on the Company's website www.jayshreetea.com

(3.30)\*

5.38

25.749

(5.05)\*

For Jay Shree Tea & Industries Limited

4.50

27.630

21.010

(20.80)

Jayashree Mohta

(Chairperson and Managing Director) DIN: 01034912

23.134

5.53

#### **HIMADRI CREDIT & FINANCE LIMITED**

CIN : L65921WB1994PLC062875 Regd.0ff : 23A,Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata - 700 001. Email: hcfi@hinnadri.com, Websic: www.himadricoefdti.n Ph No. (033) 2230-4363/ 9953 ment of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2024

Sr.	Particulars		uarter Ende	Year Ended			
No.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total income	57.60	58.26	54.12	234.73	211.57	
2	Net profit / (loss) for the period						
	(before tax, exceptional and/or						
	extraordinary items)	50.44	51.19	47.23	206.23	173.68	
3	Net profit / (loss) for the period						
	after tax (before exceptional and/						
	or extraordinary items)	34.59	38.29	33.30	159.79	134.73	
4	Net profit / (loss) for the period						
	after tax (after exceptional and/						
	or extraordinary items)	34.59	38.29	33.30	159.79	134.73	
5	Total comprehensive income for						
	the period/year (comprising net						
	profit after tax and other						
	comprehensive income after tax)	(52.01)	911.45	(168.73)	3,010.47	256.02	
6	Paid up equity share capital	300.02	300.02	300.02	300.02	300.02	
7	Other equity				8,146.37	5,135.90	
8	Earnings per equity share (before						
	and after extraordinary items)						
	(of ₹ 10/- each) (not annualised) :						
	Basic & diluted (₹)	1.15	1.28	1.11	5.33	4.49	

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 24 May, 2024. The Statutory Auditor have carried out a limited
- review on the above financial results for the quarter and year ended 31 March 2024.

  The Company is primarily engaged in the business of investing and financing and accordingly ther
- are no separate reportable segment as per Ind AS 108 "Operating Segment".

  The figures for the last quarter of the current and previous financial year are the balancing figures. between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the end of third quarter of the current and previous financial year which were subject to limited revie
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stocl Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements; Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.cse-india.com and on the Company's website at www.himadricredit.in.

On behalf of the Board of Directors AMIT CHOUDHARY

Dated: The 24th day of May, 2024 (DIN: 00152358)

#### STAR PAPER MILLS LIMITED

Regd. Office: Duncan House, 2nd Floor, 31, Netaji Subhas Road, Kolkata 700 001 CIN-L21011WB1936PLC008726, Ph: (033) 22427380-83 Fax: (033)22427383 email: star.sre@starpapers.com, website:www.starpapers.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

			(Rs. in Lakh	s except per	share data)
Sr No.	Particulars	Quarter ended 31st March 2024	Quarter ended 31st March 2023	Year ended 31st March 2024	Year ended 31st March 2023
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	10043.22	12340.76	44447.29	49268.75
2	Net Profit /( Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1434.25	2455.02	8270.28	9559.94
3	Net Profit/( Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		2148.78	8090.47	8334.21
4	Net Profit /( Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1431.16	1645.45	6400.32	6567.30
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	1175.13	1651.66	6066.46	6506.39
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	1560.83	1560.83	1560.83	1560.83
7	Other Equity	-	-	63166.85	57880.80
8	Earnings per Share (of Rs 10/-each) (in Rs.)				
	(i)Basic	9.17	10.54	41.01	42.08
	(ii) Diluted	9.17	10.54	41.01	42.08

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter & Year ended 31st March, 2024 filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available on the stock exchange websites at http://www.nseindia.com and at http://www.bseindia.com and on the Company's website at http://www.starpapers.com.
- These financial results were reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 24th May, 2024.
- The Board of Directors have recommended a dividend of Rs.4/- per equity share of Rs.10/- each (40%) for the financial year ended 31st March, 2024 subject to approval by shareholders at the ensuing AGM.

For Star Paper Mills Limited

Place: New Delhi **Managing Director** Date: 24th May, 2024



May 23, 2024

8. Other Equity

\* not annualised

9. Earnings Per Share (EPS) (Face Value : ₹ 5/- per share) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted (in ₹)

#### DDEV PLASTIKS INDUSTRIES LIMITED

CIN: L24290WB2020PLC241791 Regd Office: 2B, Pretoria Street, Kolkata - 700 071

Telephone: + 91-033-2282 3744/3745/3699/3671 E-Mail: kolkata@ddevgroup.in, Website: www.ddevgroup.in

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and all other applicab provisions, if any, of the Act, read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), General Circular Nos, 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 09/2023 dated 25th September, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars"). Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, act, rules, regulations, circulars, and notifications (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), for seeking the approval of the Members of Ddev Plastiks Industries Limited (hereinafter referred to as "the Company" or "DPIL"), by way of Ordinary Resolution, to transact the Business as set out below and as contained in the Postal Ballot Notice dated 20.05.2024 ("Postal Ballot Notice"), by passing the said resolutions, through Postal Ballot, only by way of remote e-voting process ("E-Voting").

#### Items of Business

Ratification of Related Party Transactions with Kkalpana Industries (India) Limited for the Financial Year 2023-24
 To approve Material Related Party Transactions with Kkalpana Industries (India) Limited for the Financial Year 2024-25

In Compliance with MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167dated 07th October, 2023 ("SEBI Circular"), the Company has sent the Postal Ballot Notice only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (collectively referred to as "Depositories") and whose names are recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Registrar and Share Transfer Agents (RTA) viz-C B Management Services Private Limited/ Depositories as on Friday, 17th May, 2024 ("Cut-off date"), on Friday, 24th May, 2024 and the physical copies of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope are not sent to the members. The shareholders are requested to carefully read the instructions indicated in the Postal Ballot Notice (Note No. 20) and communicate their assent (for) or dissent (against) through e-voting only.

Notice of Postal Ballot along with related Explanatory Statement is also available on Company's website at www.ddevgroup.in and at the website of BSE Limited at www.bseindia.com, where the Equity Shares of the Company are listed.A copy of the same will also be available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.

The Company has engaged the services of NSDL to provide the e-voting facility. The Remote E-Voting period commences from 09:00am (IST) on Monday, 27th May, 2024 and ends at 05:00pm (IST) on Tuesday 25th June, 2024. The E-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Votes once cast by member shall not be allowed to be change. The Electronic Voting Event Number (ÉVEN) for the purpose is 128637. All members whose name appear in the Register of Members/ Beneficial owners as on Cut-Off Date are eligible for voting and others may treat the notice for information purpose only. The voting rights shall be in proportion to the shares held by the member as on cut off date. In case of joint holders, only such holder who is highest in order of names will

Mr. Ashok Kumar Daga (FCS: 2699, CP No.: 2948), Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner who shall submit his report on or before Thursday, 27th June, 2024, The result of the postal ballot will be hosted on the website of the Company and also be communicated to BSE Limited. The resolutions, if passed with requisite majority, shall be deemed to have been passed, as if at a general meeting, on Tuesday, 25th June, 2024 i.e. the last day of the E-Voting period.

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or send a request

Tanvi Goenka

#### **JAYKAY ENTERPRISES LIMITED**

red office: Kamla Tower, Kanpur- 208001 Uttar Pradesh

Telephone: +91 5122371478-81 E mail: cs@iavkavente

#### POSTAL BALLOT NOTICE

Members of Jaykay Enterprises Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, ("the Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and in accordance with the vacquirements; Negulations, 2015 SEBI Listing Regulations; and in accordance with the juidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings conducting Postal Ballot process through e-Voting vide General Circulars No. 14/2020 dated April 8 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 22/2025 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020, December 31, 2020, No. 02/2025 13, 2027, No. 39720 dated September 20, 2027, No. 397202, December 3, 2021, No. 207202 dated June 23, 2021, No. 207202 dated December 3, 2021 No. 2072021 dated December 8, 2021 No. 207202 dated May 5, 2022, No. 11/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), Secretaria. Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("S5-2") and other applicable provisions, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks approval of the Members through Postal Ballot only by way of remote voting through electronic means ("E-Voting") in respect of the following special businesses as specified in the Postal Ballot Notice dated May 10, 2024 along with explanatory

otatomo	11 11 10 10 10 1	
S. No.	Description of Item	Type of resolution
1.	Re-designation of Mr. Partho Pratim Kar	Ordinary Resolution
	(DIN: 00508567) as the Joint Managing Director of the Company.	
2.	Re-appointment of Mrs. Renu Nanda	Special Resolution
	(DIN: 08493324) as an Independent Director of the Company	

n compliance with aforesaid MCA Circulars, Notice of Postal Ballot has been sent through electronic mode on **Friday, May 24, 2024** to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant ('**DP**') or Company's Registrar and Share Transfer Agent "RTA") viz Alankit Assignments Limited as on the Cut-off date i.e. Friday, May 17, 2024. The Notice of Postal Ballot is also available on the website of the Company i.e. www.jaykayenterprises.com, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited i.e. www.evotingindia.com. Members who do not receive the

Notice may download it from the above mentioned websites A person, whose name is recorded in the register of members/list of beneficial owner as on the cut off date shall only be considered eligible for the purpose of e-voting. Any recipient of the Notice who was not a member of the Company as on the Cut-off date should treat this Notice for information

Date: May 24, 2024

- The members of the Company are hereby notified that: The voting rights of the Members shall be reckoned in proportion to the equity shares held be them on the Cut-off date on **Friday, May 17, 2024.**
- The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited for the purpose of providing e-voting facility to all its members on the resolution set forth in the Notice The instructions for e-Voting are given in detail in Postal Ballot Notice. The remote e-Voting period will commence on Saturday, May 25, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and
- ends on Sunday, June 23, 2024 at 5:00 P.M. (IST). Remote e-Voting will not be allowed beyon aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon The Company has appointed CS Varuna Mittal, Company Secretary in whole-time practice with Membership No. ACS 57727 and Certificate of Practice No. 23575 as the Scrutinizer to

scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The results of e-voting along with Scrutinizer's report will be announced within 2 working days from the conclusion of the e-voting and will be placed on the website of the Company i.e. <a href="https://www.eyotingindia.com">www.eyotingindia.com</a>. The results hall also be uploaded on the Bombay Stock Exchange (BSE) portal i.e. www.evotingindia.com The Company will also display the Result of e-voting alongwith Scrutinizer report on the Notice

Board of its Registered office. f you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you may refe in you have any questions or issues equating eventing from the Cobbe evolution cystem, you may rect the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at <a href="https://www.evotingindia.com">www.evotingindia.com</a> or contact at to free no. 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 22 55 33. By order of the Board

> For Jaykay Enterprises Limited Yogesh Sharma Company Secretary & Compliance Office Membership No. ACS 29286

## **ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited**

Date: 24.05.2024

(Formerly known as WABCO INDIA Limited) CIN: L34103TN2004PLC054667

Registered Office: Plot No.3 (SP), III Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600058. Telephone No.91 44 42242000. Fax No.91 44 42242000

email: cvcs.info.india@zf.com: website: www.zf.com

#### STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2024

(Rupees in lakhs except EPS)

	STANDALONE				CONSOLIDATED					
B. W. L.		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			ended
Particulars	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Revenue from operations	95,552.18	88,681.61	97,727.78	378,370.85	344,458.60	95,864.16	89,850.58	97,693.71	381,564.74	344,424.53
Other Income	1,998.93	3,015.30	1,806.58	9,577.37	6,701.31	1,989.41	2,945.71	1,803.48	9,481.61	6,698.21
Total income	97,551.11	91,696.91	99,534.36	387,948.22	351,159.91	97,853.57	92,796.29	99,497.19	391,046.35	351,122.74
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	13,723.55	13,367.18	13,485.47	54,441.76	42,688.82	13,618.13	13,541.75	13,486.31	54,643.06	42,689.66
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	13,723.55	13,367.18	13,485.47	54,441.76	42,688.82	13,618.13	13,541.75	13,486.31	54,643.06	42,689.66
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	10,107.26	9,961.67	10,121.01	40,477.94	31,767.34	10,019.76	10,083.73	10,120.85	40,644.65	31,767.18
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,943.49	10,002.14	9,705.01	40,419.31	31,780.03	9,855.99	10,124.20	9,704.85	40,586.02	31,779.87
Equity Share Capital	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38	948.38
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				277,916.82	239,963.30				278,083.37	239,963.14
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic Diluted	53.29 53.29	52.52 52.52	53.36 53.36	213.41 213.41	167.48 167.48	52.83 52.83	53.16 53.16	53.36 53.36	214.28 214.28	167.48 167.48

Chennai

May 24, 2024

- 1 The above standalone and consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March 2024 were reviewed by the Audit Committee and upon its recommendation, were approved by the Board of Directors at its meeting held on 24 May 2024. The above results for the year ended 31 March 2024 have been subjected to an audit by the statutory auditor of the Company. The report of the statutory auditors is unqualified
- 2 The standalone and consolidated financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and SEBI Circular dated 5 July 2016
- 3 The consolidated financial results include the financial results of ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited ('holding company') and the financial results of its subsidiary ZF CV Control Systems Manufacturing India Private Limited
- (together called as 'the Group').

		5	TANDALONI	<b>.</b>		CONSOLIDATED				
	Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Sales of Products	84,969.41	78,547.10	89,033.95	337,333.18	312,699.77	85,405.35	79,715.51	89,000.69	340,662.23	312,666.51
Sale/rendering of services	9,904.34	9,460.33	7,994.49	37,915.60	28,954.74	9,780.38	9,460.89	7,993.68	37,780.44	28,953.93
Other operating revenue	678.43	674.18	699.34	3,122.07	2,804.09	678.43	674.18	699.34	3,122.07	2,804.09
Total	95,552.18	88,681.61	97,727.78	378,370.85	344,458.60	95,864.16	89,850.58	97,693.71	381,564.74	344,424.53

- 5 The Company operates in one segment, namely automotive components and allied services
- The figures of the quarter ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year which was subjected to a limited review
- Events after reporting period: The Board has recommended a final dividend of 340% (INR 17 per share of the face value of INR 5 each) for the year 2023-24 subject to the approval of the Shareholders in Annual General Meeting 8 The figures for the previous period / year, have been regrouped wherever necessary to conform to the current period's / year's classification

For and on behalf of the Board of Directors Akash Passey

कमजोर संकेतों से गिरा शेयर बाजार

मुम्बई, 24 मई (ईएमएस)। घरेलू रहा। निफ्टी मिडकैप 14 अंक की

बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी पर बंद हुआ। वोडाफोन-आइडिया,

से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही शेयर लाभ में रहे। इनमें 7.47

शुऋवार के कारोबार के दौरान संकेतों के बीच ही शेयर बाजार की

मिडकैप शेयरों में उतार-चढ़ाव बना कमजोर शुरुआत हुई।

शैयर बाजार शुऋवार को गिरावट पर

दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर

75,410.39 पर बंद

22,957.10 पर बंद

बिकवाली हावी रहने से आयी है। दिन

भर के कारोबार के तीस शेयरों वाला

बीएसई सेंसेक्स सात अंक की

गिरावट के साथ ही 75,410.39 अंक

पर बंद हुआ, जबकि पचास शेयरों

वाला निफ्टी 10 अंक नीचे आकर

22,957.10 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स ७ अंक फिसलकर

निफ्टी 10 अंक लुढ़ककर

आज कानपर 25 मर्ड 2024

श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का मुनाफा 158 करोड़ हुआ चेन्नई। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही का मुनाफा 158 करोड़ रुपये रहा। कम्पनी का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 156 करोड रुपये रहा था। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कुल व्यवसाय प्रीमियम 62 प्रतिशत बढ़कर 1,871 करोड़ रुपये हो गया।

# पूरे जोर पर है गेहूं की खरीद सेलविन ट्रेडर्स करेगी पटेल कंटेनर में निवेश अहमदाबाद, 24 मई। सेलविन ट्रेडर्स

#### 🔲 उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का गेहूं की खरीदारी में अधिक योगदान

(आज समाचार सेवा)

नयी दिल्ली, 24 मई। केंद्र सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस वर्ष गेहूं की अधिक खरीद का दावा करते हुये कहा है कि केंद्रीय पूल में 262.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिससे 22.31 लाख किसानों को 59,715 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का गेहूं की खरीदारी में अधिक योगदान रहा है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान देश के प्रमुख खरीदारी करने वाले राज्यों में गेहूं की खरीदारी सुचारू

जा चुका है, जो पिछले वर्ष की कुल 262.02 टन और 9.07 लाख मीट्रिक टन की खरीद की लाख मीटिक टन खरीदारी से अधिक है। रबी सीजन 2024-25 के दौरान कुल 22.31 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्हें कुल 59,715 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन

#### 22.31 लाख किसानों को 59,715 करोड़ रुपये की एमएसपी मिली

मूल्य मिला है। गेहूं की खरीदारी में मुख्य योगदान पांच खरीद करने वाले राज्यों, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रहा है। जहां ऋमशः 124.26 लाख रूप से चल रही है। इस वर्ष अब तक केंद्रीय मीट्रिक टन, 71.49 लाख मीट्रिक टन, पूल में 262.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा 47.78 लाख मीट्रिक टन, 9.66 लाख मीट्रिक

गयी। मंत्रालय ने बताया कि चावल की खरीदारी भी सुचारू रूप से चल रही है। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान अब तक 98.26 लाख किसानों से सीधे ही 489.15 लाख मीट्रिक टन चावल के बराबर 728.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गयी है और लगभग 1,60,472 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है।

खरीदारी की उपरोक्त मात्रा के साथ वर्तमान में केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो देश की पीएमजीकेएवाई तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और बाजार उपायों के लिए भी एक सुखद स्थिति दर्शाता है।

लिमिटेड के निदेशक मंडल ने पटेल कंटेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रणनीतिक निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कम्पनी पटेल कंटेनर में 36 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। जिसे अगले दो वर्षों में 51 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सेलविन ट्रेडर्स के निवेश का उपयोग गुजरात के भावनगर जिले में लॉजिस्टिक कंटेनरों के लिए एक नयी विनिर्माण इकाई की स्थापना में सहायता के लिए किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि पटेल कंटेनर ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, 2024 में गुजरात के भावनगर जिले में लॉजिस्टिक कंटेनरों की सुविधा स्थापित करने के लिए भावनगर में विनिर्माण सुविधा के लिए 45 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता किया था।

8

#### ई-टेण्डर सूचना सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर सम्भाग कानपुर

गिरावट के साथ 14,662.65 अंक

भारत फोर्ज और पावर फाइनेंस के

फीसदी, 5.47 फीसदी और

5.22 फीसदी की बढ़त रही।

जबकि हिंदस्तान एयरोनॉटिक्स

और आदित्य बिड़ला फाइनेंस

के शेयरों में 4.46 फीसदी और

3.53 फीसदी की.बढ़त आयी।

वहीं इंटरग्लोब एविएशन, टोरेंट

फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लौरस लैब्स

और वेदांता के शेयरों में 3.27

फीसदी, 2.98 फीसदी, 2.76

फीसदी, 2.51 फीसदी और 2.50

इससे पहले शुऋवार सुबह दुनिया भर

के बाजारों से मिले नकारात्मक

फीसदी की गिरावट रही।

पता- 13/389 परमठ सिविल लाइन्स, कानपुर। दूरभाष नम्बर - 7754845907 व 8299225879 ई-मेल rfekanpur50@gmail.com टेण्डर संख्या 605 दिनांक 24.5.24

इस कार्यालय के ई-टेण्डर विज्ञप्ति संख्या 205/07-स्वी०/ सिंगल स्टेज निविदा/2024-25 दिनांक 30.04. 2024 के द्वारा कानपुर सम्भाग अन्तर्गत सम्बन्धित ब्लाकों पर ई—निविदायें आमंत्रित की गयी जिनमें तकनीकी बिड खोले जाने के उपरान्त 01 ब्लॉक गुटैया पर अईकारी निविदायें प्राप्त न होने के फलस्वरूप पुनः खाद्य तथा रसद विभाग में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर सम्भाग, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर के अवशेष ब्लॉक गुटैया पर हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन ई—टेण्डर आमंत्रित किये गये है। इच्छुक निविदादाता द्वारा etender.up.nic.in पर डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से (जो यू०पी०एल०सी० में पंजीकृत हो) ऑनलाइन निविदा डाल सकते हैं। इच्छुक निविदादाता निविदा हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ एवं जानकारी के लिये टेण्डर डालने की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कानपुर सम्भाग, कानपुर के कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है निविदा शर्ते व अन्य निर्देश https:// etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है।

निविदा की तिथि एवं समय						
निविदा आमंत्रित करने की तिथि	25.05.2024					
निविदादाताओं हेतु निविदा से पूर्व (प्री–बिड)	दिनांक 20.03.2024 समय प्रातः 11.00 बजे					
बैठक की तिथि व समय						
निविदा बन्द होने की तिथि व समय	30.05.2024 समय अपरान्ह 12.00 बजे					
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	30.05.2024 समय अपरान्ह 02.00 क					
निविदा मूल्य	590.00 / — हेतु प्रति ब्लाक की दर से					
धरोहर धनराशि	'अ'श्रेणी हेतु रू० 1,00,000 / — तथा 'ब' श्रेणी					
	हेतु रू0-60,000/- हेतु प्रति ब्लाक की दर से					
बैंक खाते का विवरण	खाताधारक का नाम e- tender fees खाता संख्या–213910400006897 आई०एफ०एस० कोड – IBKL0002139 बैंक का नाम IDBI BANK ब्रांच का नाम – KAKADEV KANPUR सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर सम्भाग, कानपुर।					

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर सम्भाग, कानपुर।

जी ने सोनी से 750

नयी दिल्ली, 24 मई (ईएमएस)।

(जीईईएल) ने सोनी और उसकी

भारतीय सहयोगी कम्पनियों से

750 करोड रुपये टर्मिनेशन फीस

की मांग की है। जी ने शेयर बाजारों

को बताया कि कलवर मैक्स और

बीईपीएल ने विलय को लेकर हुए

समझौते (एमसीए) की शर्तों का

उल्लंघन किया है। इस वजह से जी

ने 23 मई को एक पत्र जारी कर

इस समझौते को खत्म कर दिया है

और जुर्माने के तौर पर 90 मिलियन

डॉलर की मांग की है। फिलहाल इस

मामले को लेकर कोर्ट में कानूनी

लड़ाई चल रही है। कम्पनी ने एक

बयान में कहा कि कलवर मैक्स

और बीईपीएल ने एमसीएक के

तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं

किया है। इसलिए कम्पनी ने

एमसीए को खत्म कर दिया है।

एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज

#### कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

पत्र संख्या-स्था-५ (ख)-पदोन्नति-प्रधान सहायक-२०२३-२४(अनु०)//७८२ राज्य कर लखनऊ :: दिनांक : २४ मई, २०२४

#### -:: प्रोन्नति आदेश::-

कार्मिक अनुभाग-1, के शासनादेश संख्या-4/2024/417/सैतालिस-का-1-2024-13(2)ध्2024 दिनांक 10.05. 2024 के प्रस्तर संख्या-2 एवं 3 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों जिनकी निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है एवं जिनकी चयन वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है. को उसी स्थान पर In-Situ उच्च वेतनमान/उच्च पदास्थान पर प्रोन्नत किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 01.03.2024 में की गयी संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

	श्री/श्रीमती/कु०	वर्तमान तैनाती स्थल	जन्मतिथि
2	3	4	5
2916	आदित्य प्रताप सिंह / अनिल कुमार सिंह	मुरादाबाद	07.07.1983
2917	अंकित शर्मा / राकेश कुमार शर्मा	अमरोहा	01.07.1986
2918	राहुल सिंह राना / मुकेश सिंह	मुरादाबाद	20.07.1992
4 2920 दीपक कुमार / ओम प्रकाश		लखनऊ	17.04.1981
2922 ऋषि मिश्रा / शिव स्वरूप मिश्रा		कानपुर	18.02.1988
2923 अभिषेक वर्मा / प्रवेश कुमार वर्मा		सहारनपुर	05.03.1993
2924	प्रेम लता / धर्मेन्द्र कुमार	गाजियाबाद	05.05.1972
2925	करुणा देवी / अर्जुन प्रसाद	गाजियाबाद	01.09.1975
2926	विपिन गुलाटी / रमेश गुलाटी	सहारनपुर	11.04.1983
2927	सूर्यमणि यादव / राम सूरत राम यादव	चंदौली	01.07.1990
2928 संजय सिंह / राजेश कुमार श्रीवास्तव		मुख्यालय	06.07.1987
2929	रोहित चन्द्र तिवारी / राम गोपाल तिवारी	कानपुर	26.09.1987
	2916 2917 2918 2920 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928	2916 आदित्य प्रताप सिंह / अनिल कुमार सिंह 2917 अंकित शर्मा / राकेश कुमार शर्मा 2918 राहुल सिंह राना / मुकेश सिंह 2920 दीपक कुमार / ओम प्रकाश 2922 ऋषि मिश्रा / शिव स्वरूप मिश्रा 2923 अभिषेक वर्मा / प्रवेश कुमार वर्मा 2924 प्रेम लता / धर्मेन्द्र कुमार 2925 करुणा देवी / अर्जुन प्रसाद 2926 विपिन गुलाटी / रमेश गुलाटी 2927 सूर्यमणि यादव / राम सूरत राम यादव 2928 संजय सिंह / राजेश कुमार श्रीवास्तव 2929 रोहित चन्द्र तिवारी / राम गोपाल तिवारी	2916 आदित्य प्रताप सिंह / अनिल कुमार सिंह मुरादाबाद 2917 अंकित शर्मा / राकेश कुमार शर्मा अमरोहा 2918 राहुल सिंह राना / मुकेश सिंह मुरादाबाद 2920 दीपक कुमार / ओम प्रकाश लखनऊ 2922 ऋषि मिश्रा / शिव स्वरूप मिश्रा कानपुर 2923 अभिषेक वर्मा / प्रवेश कुमार वर्मा सहारनपुर 2924 प्रेम लता / धर्मेन्द्र कुमार गाजियाबाद 2925 करुणा देवी / अर्जुन प्रसाद गाजियाबाद 2926 विपन गुलाटी / रमेश गुलाटी सहारनपुर 2927 सूर्यमणि यादव / राम सूरत राम यादव चंदौली 2928 संजय सिंह / राजेश कुमार श्रीवास्तव मुख्यालय

- 2- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन/कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 29.05.2024 तक कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नित के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नित फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिष्टिचत कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/ नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच/ ई०ओ०डब्ल्यू) जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सुचित करें।
- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नित आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुनील कुमार वर्मा) अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

## एरिना लिमिटेड ने सहकारी बैंकों के लिए लांच किया इंटेलेक्ट डिजिटल कोर

नयी दिल्ली, 24 मई। क्लाउड-नेटिव भविष्य के लिए तैयार मल्टी-प्रोडक्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्पनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ने भारत में सहकारी बैंकों के लिए इंटेलेक्ट डिजिटल कोर लांच किया है। यह एंटरप्राइज़-ग्रेड वाला बैंकिंग टेक्नोलॉजी सुइट ईमैकडाटएआई से बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म है जिसे वित्तीय संस्थानों के भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करने के लिए 'फर्स्ट प्रिंसिपल्स' थिंकिंग द्वारा निर्मित किया गया है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंकों को चलाने वाली संयोजनीय और प्रासंगिक कोर बैंकिंग तकनीक का लाभ उठाते हुए, इंटलेक्ट सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल इंडिया पहल के रूप में विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। एंटरप्राइज-ग्रेड बैंकिंग टेक्नॉलजी सुइट टियर-2 और टियर-3 शहरों में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करता है।

#### जयके एंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L55101UP1961PLC001187 पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर-208001 टेलीफोन: +91 512 2371478-81, ईमेल: cs@jaykayenterprises.com वेव: www.jaykayenterprises.com पोस्टल बैलट सूचना

जेंके एंटरप्राइजेंज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम'**) की धारा 108 और धारा 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 वे साथ पिठि, विनियम विश्वमन ४४ और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबहुता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2016 (**''सेवी लिस्टिं') विनियम**) के अन्य लागू प्रावधान और कॉपीटेंट कार मंत्रालय **('एमसीए')** द्वारा जारी, सामान्य पिटिपत्र संख्या क्रमांक 14/2020 दिनांक ८ अप्रैल 2020, क्रमांव 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, क्रमांक 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जू 2020, क्रमांक 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, क्रमांक 39/2020, 31 दिसम्बर 2020, क्रमांक 02/202 दिनांक १३ जनवरी २०२१, क्रमांक १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१, क्रमांक २०/२०२१ दिनांक ८ दिसम्बर २०२ क्रमांक ०३/२०२२ दिनांक ५ मई २०२२, क्रमांक ११/२०२२ दिनांक २८ दिसम्बर २०२२ और क्रमांक ०९/२०२ दिनांक २५ सितम्बर २०२३, कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय (\*एमसीए परिपत्रों") द्वारा जारी सामान्य प्रिपत्रों वे निर्धारित दिशानिरेंशों के अनुसार और भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों प सचिवीय मानक **("एसएस-२")** और अन्य लागू प्रावधान, जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन या उसका पुन हाचिवार मानक (**''रबर्धन'')** आर उनके जानू हैं, कंपनी आम बैठकें /पोस्टन बैठह जा विचानिक राशांवा या उसका पुरा अधिनियमन शामिल है और फिल्हाल लागू हैं, कंपनी आम बैठकें /पोस्टल बैठल प्रक्रिया ईं-वोटिंग के मार्थम से आयोजित करेगी। कंपनी निम्नलिखित विशेष व्यवसाय के संबंध में इनकर्रानिक माध्यम (**'ई-वोटिंग')** के माध्यम से पोस्टल बैठेट के माध्यम से सदस्यों की मंजूरी चाहती है, जैसा कि **10 मई, 2024 के पोस्टल बैठेट नोटिस** में व्याख्यात्मक विवरण के साथ निर्दिष्ट है :

क्र.सं.	विषय का विवरण	संकल्प का प्रकार
1.	श्री पाथों प्रतिम कर की पुनः नियुक्ति (DIN: 00508567) कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में।	साधारण संकल्प
2.	श्रीमती रेनू नंदा की पुनः नियुक्ति (DIN: 08493324) कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में।	विशेष संकल्प

मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट **('डीपी**' नाड के मार्थय है। उन तरदाय की जान है। जानक इन्नेजिय ते किया वा डिपानिटर पाटानिटर के साथ या कंपनी के रिनिट्सर और शेयर रोसफर एजेंट **("आरटीए")** अर्थात अलेकर असाइनमेंट्स लि के साथ **कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 17 मई, 2024**. तक पंजीकृत हैं।

क साथ **कट-आफ latia यांना शुकवार, 17 मंड्र, 2024.** तक पंजाकृत हा पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट यांनी <u>www.jaykayenterprises.com,</u> बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यांनी <u>www.bseindia.com</u> और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट यांन् www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को नोटिस नहीं मिला है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी खामी की सूची में दर्ज है, उसे हं ई-वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। नोटिस का कोई भी प्राप्तकर्ता जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी क सदस्य नहीं था, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। कंपनी के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना **शुकवार, १७ मई, २०२४**. को कर-ऑफ तिथि पर उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में की जाएगी।

कंपनी ने नोटिस में निधारित संकल्प पर अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेंट्रल डिपॉजिटरी सुविसेन (इंडिया) लिमिटेंड की सेवाएं ली हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस में ई-वोटिंग के निर्देश विस्तार से दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि **शनिवार, 25 मई, 2024 को सुबह 9:00 बजे (IST)** शुरू होगी और **रविवार, 23** जून 2024 को शाम 5:00 बजे ((sT) समाप्त होगी । उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोर ई-वोरिंग अनुमति नहीं दी जाएगी और अवधि समाप्त होने पर सीडीएसएल द्वारा ई-वोरिंग मॉड्यूल को तुरंत अक्ष

कर दिया जाएगा। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए पूर्णकालिक प्रैक्टिर में कंपनी सचिव सीएस वरुणा मित्तल, सदस्यता संख्या एसीएस ५७७२७ और प्रैक्टिंस प्रमाणपत्र संख्य 23575 है, को संवीक्षक नियुक्त किया है।

टिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम ई-वोटिंग के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीत expicentsyst का levic क सीय s-allciv के पारणांभ s-allciv के संभापन के 2 काय दिवसी के भारत घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट यांनी <u>www.joykayenterprises.com</u> और सीडीएसएस की वेबसाइट यांनी <u>www.evotingindia.com</u> पर रखे जाएंगे। परिणाम बॉम्बे स्टॉक एक्सपेज (बीएसड़) जोटील यांनी <u>www.evotingindia.com</u> पर भी अपलोड किए जाएंगे। कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर स्कूटिनाइज़र रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग का परिणाम भी प्रदर्शित करेगी।

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आ सहायता अनुभाग के तहत <u>www.evotingindia.com</u> पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू और ई-वोटिंग मैनुअल देस सकते हूँ या आप <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर ईमेल लिखें या टीं फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवीं, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्र्र डेपॉनिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्र्स ाडनामिक मार्चिक प्रित्या होने हैं। एक एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), गुंबई – 400013 या helpdesk evoting@cdslindia.com पर एर इमेल भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करके संबोधित की जा सकती हैं। बोर्ड की आजानर

टिनांक: 24 मई, 2024

दिनांक- 24.05.2024

कृते जयके एंटरप्राइजेज लिमिटे हस्ता/ कंपनी सचिव और अनपालन अधिकार्र

# पर सूचीबद्ध कम्पनियों का एमकैप ट्लियन अमेरिकी डॉलर के पार

पिछले 10 वर्षों में निफ्टी50 इंडेक्स ने 13.4 प्रतिशत रिटर्न दिया

मुम्बई, 24 मई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भारतीय लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक सूचीबद्ध कम्पनियों का बाजार पूंजीकरण 23 मई को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (416.57 ट्रिलियन रुपये) को पार कर गया। उसी दिन निफ्टी50 इंडेक्स 22,993.60 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। निफ्टी 500 इंडेक्स ने भी सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। भारतीय सूचीबद्ध कम्पनियों के बाजार पूंजीकरण को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (जुलाई 2017) से 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (मई 2021) तक पहुंचने में लगभग 46 महीने लगे। 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (दिसम्बर 2023) तक पहुंचने में लगभग 30 महीने लगे और अब नवीनतम अमेरिकी डॉलर एक ट्रिलियन जोड़ने में केवल 6 महीने लगे। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 5 कम्पनियां रिलायंस इंडेस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्धि को हासिल करने पर बधाई देता हूं।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड हैं। पिछले 10 वर्षों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 13.4 प्रतिशत रिटर्न दिया है। इसी अवधि में घरेलू म्यूचुअल फंडों का एसेट अंडर मैनेजमेंट अप्रैल 2014 के अंत में 9.45 ट्रिलियन रुपये से 506 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत में 57.26 ट्रिलियन रुपये हो गया। एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कष्णन ने बताया कि मैं प्रगतिशील नियामक ढांचे के साथ पुंजी बाजार ईको सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार, भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सूचीबद्ध कम्पनियों, व्यापारिक सदस्यों. निवेशकों और अन्य सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण



कार्यक्रम में हिस्सा लेते अधिकारी एवं संगठन के पदाधिकारी।

कानपुर, 24 मई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नये नियमों से छोटे व मझँले फाउंड्री एवं कास्टिंग उद्यमियों को काफी कठिनाई होगी। अभी तक कानपर के उद्यमियों को किसी प्रकार की जानकारी एवं प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। बीआईएस नियमों से वह अभी तक अलग कटे हुए थे। यह बातें द इंस्टीट्यूट आफ इंडियन फाउंड्रीमेन एसोसिएशन के कार्यक्रम चेयरमैन व नगर संयोजक देव दुग्गल ने कहीं। स्वरूप नगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में एफ आईसीए के चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने कहा की 2022-23 में प्रति वर्ष 14.16 मिलियन मीट्रिक टन के साथ भारत दुनिया में कास्टिंग का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। सीनियर डायरेक्टर एंड हेड बीआईएस लखनऊ सुधीर विश्नोई ने कहा की कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य कास्ट आयरन उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के लिये फाउंड्री उद्योग को संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को समझ कर तथा उसका निस्तारण कराते हुए प्रमाणन प्रक्रिया की आवश्यकताओं और चुनौतियों से सभी उद्यमियों को अवगत कराना है। एके मंडल मुख्य अतिथि ने कहा कि आज आईआईएफ ने कानपुर के फाउंड्री उद्यमियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा है। जिससे यहां के उद्यमियों को अपने उद्योग को बढ़ाने के नये-नये अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में सुधीर बिश्नोई, सलिल गुप्ता, उमंग अग्रवाल, दिनेश गुप्ता, प्रणय जैन, उप निदेशक बीआईएस लखनऊ संजीव कुमार, उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव के साथ लगभग 130 उद्यमी शामिल हुए।

देश में नियति के मोर्चे पर यात्री वाहनों की रफ्तार सुस्त

नयी दिल्ली, 24 मई

(ईएमएस)। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में उत्पादन के प्रतिशत के तौर पर देश से यात्री वाहनों का निर्यात एक दशक में सबसे कम रहा। एशियाई क्षेत्र को निर्यात के लिए वाहनों के उत्पादन में भी भारत की हिस्सेदारी जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं अन्य देशों से कम रही। वित्त वर्ष 2023 में देश में बने कुल यात्री वाहनों में से केवल 13 फीसदी निर्यात किये गये, जबिक 2022 में आंकड़ा 14 फीसदी था। कोविड महामारी से पहले 2019 में यह आंकड़ा 18 कीसदी रहा था। साल 2014 म<mark>े</mark>ं वाहनों के कुल उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 19 फीसदी रही, जिसे अभी तक लांघा नहीं जा सका है। वित्त वर्ष 2023 में जापान में बनी कारों में से करीब 50 फीसदी का निर्यात हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुल उत्पादन के 66 फीसदी, थाईलैंड ने 61 फीसदी और इंडोनेशिया ने 18 फीसदी वाहनों का निर्यात किया। मारुति सुजूकी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उत्पादन में निर्यात की घटती हिस्सेदारी के बारे में कहा कि निर्यात के लिए आपको बड़ी कारों की जरूरत होती है, जिसमें दुनिया भर की कम्पनियों को टक्कर देने के लिए उत्पादन की व्यापक सुविधाएं भारत में नहीं हैं।

#### Canara Bank माग सचना

शाखा- एम.एस.एम.ई. सुलभ, कानपुर-।, 16/79, पहली मंजिल, सिविल लाइन्स, कानपूर- 208001 प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के नियम-3 के अन्तर्गत नोटिस।

यह मांग नोटिस प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनः निर्माण एव प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 वे नियम- 3 के अन्तर्गत दी जाती है तथा ऋणी/ जमानतकर्ता से मांग की जाती है कि उन्हें दी गई ऋण सुविधाओं/ उनके द्वारा दी गई गारंटी पर ब्याज एव अन्य प्रासंगिक व्यय, लागत आदि नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा कर दें अन्यथा बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू अन्य प्रावधानों में दिये गए कोई या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगा।

ऋणी/जमानतकर्ता को धारा 13 (13) के अन्तर्गत यह भी नोटिस दी जाती है कि वह बैंक से लिखित सहमित के बिन नीचे दी गई आस्तियों की बिक्री, लीज आदि न करें। उक्त अधिनियम में दिए गए सांविधिक व्यादेश/ नियंत्रण का उल्लंघन करना एव अपराध है। उक्त अधिनियम या लागू अन्य कानून के अन्तर्गत बैंक को दिए गए अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यह मांग नोटिर दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि बैंक यह पता है कि उसे अन्य राशि देय है तो ऋणकर्ता को इससे छूट प्राप्त नहीं होगी। ऋणी जमानतकर्ता, ऋण सुविधाएं, प्रतिभूति सम्पत्ति, एनपीए की तिथि एवं देयतारी का विवरण निम्न प्रकार हैः

क्रं. सं.	ऋणा/जमानतकता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना कि तिथि तथा बकाया राशि
		मएसई सुलभ, कानपुर-।	
1.	इंटरप्राइजेज, प्रोपराइटर- श्री अमन सिंह पता-	चल सम्पत्ति का विवरणः- सम्पत्ति सं0- 1- इसमें सभी स्टॉक दृष्टिबंधक और बही ऋण शामिल है। टाईटल	20.05.2024
	प्लॉट सं0- 12, आराजी सं0- 19, बैरी अकबरपुर कल्याणपुर, कानपुर नगर-208017. (2)- श्री अमन सिंह (प्रोपराइटर) पुत्र श्री करुणेन्द्र प्रताप सिंह पता- 14 वसुन्धरा विहार, आई आई टी गेट, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208017.	धारक का नाम- भेसर्स के पी इंटरप्राइजेज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी- 200063157231. सम्पत्ति संख्या- 2- इसमें सभी बंधक संयंत्र और मशीनरी शामिल है। टाईटल धारक का नाम- भेसर्स के पी इंटरप्राइजेज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी-	देय का विवरण रू. 1,74,96,865.00 + ब्याज व अन्य व्यय।
	400062395163. अचल संपत्ति का विवरण- सः खाता सं0- 253, ग्राम- रसूलाबाद, कानपुर में स्थि फीट कच्चा रास्ता उसके बाद आराजी सं0- 2734 सचान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का शेष भाग उसके ब		

का खेत। **टाईटल धारक का नाम-** मेसर्स के पी इंटरप्राइजेज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी- 400058767093.

स्थानः- कानपुर

## बाजार भाव



59/45 बिरहाना,रोड कानपुर फोन:7651966520,9336251965 B.I.S.HALL MARK ज्येलरी

सर्राफ

(प्रति चाँदी 999 किलो)-92000 सिक्का (प्रति सैकड़ा) लि वाल - 95000, सिक्का (प्रति सैकड़) बिकवाल-100000, सोना बिसकुट (दस ग्राम) - 73900, गिन्नी (प्रति नग)-55050-55250

अनाज (प्रति कुन्तल) गेहू दड़ा 2350-2500, आरआर-21 2550-2600 गेहू फारम 2600-2700, जौ 2000-2100, ज्वार 2000-4000, बाजरा 2100-2150,

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

मकाई 2200-2400 दलहन 6200-6400

अरहर 9000-10000, मसूर 5500-5600, मटर 3700-4000, उड़द हरा 10000-11000, उड़द काला 6000-8000, मूंग

8500-8800 दाल (प्रति कुन्तल)

अरहर फूल 16900-17000, अरहर स्पेशल 14500-14600, चना दाल 7900-8000 मटर दाल 4850-4950 मसूर मलका 7325-7350 मसूर दाल 7525-7575 उड़द दाल 9000-13000, उड़द धोवा 10000-13000, मूंग दाल 9500-10500, मूंगधोवा

10000-11500 चावल (प्रति कुन्तल) अरवा 2000-2300 बासमती 8500-10000, सेला 2500-3000 बासमती ।।- 6500